



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष 1936 (श0)
(सं0 पटना 176) पटना, सोमवार, 12 जनवरी 2015

सं0 म0/योजना- 76/2008—1856/मत्स्य

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(मत्स्य)

संकल्प

11 दिसम्बर 2014

मछुआ आवास योजना के तहत राज्य के मछुआरों के लिए आवास, चापाकल एवं सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाता है। यह एक केन्द्रीय योजना है जिसके कार्यान्वयन के लिए 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति एवं निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। इस योजना के लाभुकों का चयन जिला परिषद् के माध्यम से किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या- 5697 दिनांक 25.09.2001 के आलोक में किया गया था। केन्द्र सरकार की मार्गदर्शिका में इस संबंध में जिला परिषद् का उल्लेख नहीं था।

2. विभागीय संकल्प संख्या- 5697 दिनांक 25.09.2001 द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में जिला परिषद् के माध्यम से लाभुकों के चयन में विवाद होने अथवा विलंबित होने से इस योजना के तहत उपलब्ध राशि का समुचित उपयोग करने में कठिनाई होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक उपलब्धि से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन ससमय भारत सरकार को नहीं भेजा जा सकता है जिसके फलस्वरूप योजना की अगली किस्त की राशि भारत सरकार द्वारा विमुक्त नहीं की जाती है। फलस्वरूप मछुआरों के इस कल्याणकारी योजना का समुचित लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है।

3. अतः मछुआरों की इस कल्याणकारी योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 5एम0(1) 304/2001/प0पा0/ 5697 दिनांक 25.09.2001 की कंडिका- 1(ड), जिसमें लाभुकों के चयन की शक्ति जिला परिषद् को दी गई है, को विलोपित करते हुए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न रूपेण समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|---|-------------|
| (क) उप विकास आयुक्त- | अध्यक्ष |
| (ख) उप मत्स्य निदेशक(परिक्षेत्र)- | सदस्य |
| (ग) सरकार के द्वारा मनोनीत एक प्रगतिशील मत्स्य कृषक के प्रतिनिधि- | सदस्य |
| (घ) जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी- | सदस्य सचिव। |

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 176-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>